



**SSC GK**

# **PYQs Class Notes**

**PART-4**

**Parmar Sir**

**Lecture:- 14**



**For Notes Join Telegram :**



**OR**  
**Scan**

**Click on the icon.**



**For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel**



**OR**  
**Scan**

**Click on the icon.**





# PARMAR SSC

## MAGAZINES...



Stay ahead in your exam preparation with the best creative magazine for SSC. Download the latest issue of our current affairs magazine here and master the current affairs section effortlessly :)

# PYQ 4 LECTURE 14

1.

Which of the following duties is mentioned as the 11th Fundamental Duty in the Indian Constitution? 42nd ✓

निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लिखित है?

1. To protect the integrity and unity of India
  2. To develop a scientific temper
  3. To provide opportunities for education to children between 6-14 years of age
  4. To cherish and preserve the rich national heritage of our culture
- 
1. भारत की अखंडता और एकता की रक्षा करना
  2. वैज्ञानिक सोच विकसित करना
  3. 6-14 वर्ष की आय के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना
  4. हमारी संस्कृति की समृद्ध राष्ट्रीय विरासत को संजोना और संरक्षित करना

## मौलिक कर्तव्य

मौलिक कर्तव्य गांधीजी  
प्रसिद्ध तर्जा समिति - { फ़लून  
स्कूल

राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम - 1971

सरदार झण्ण सिंह → भूतपूर्व सीवियत संघ

- ◎ 10 मौलिक कर्तव्य जीड़ी गये। (प्रधानमंत्री - इंदिरा गांधी)
  - ◎ मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं पी, इन्हें 42 वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। भाग - 4(क) - अनु० 51(A)
  - ◎ अंतिम मौलिक कर्तव्य - 51(A)(१) की 86 वें संविधान संशोधन 2002 की ढारा जोड़ा गया।
- वर्तमान - 11 मौलिक कर्तव्य

### मौलिक कर्तव्य:

1. प्रतीक नागरिक का यह कर्तव्य हीगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रद्वच और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करनी वाले उच्च आदर्शों की दृश्य में संमोर्ख रखें और उनका पालन करे।

3. भारत की प्रभुता, स्वता और अखंडता की रक्षा करें।
  4. देश की रक्षा करें।
  5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निमणि करें।
  6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें।
  7. स्थानिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
  8. वैज्ञानिक इष्टिकीण और ज्ञानार्थने की भावना का विकास करें।
  9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें।
  10. व्यक्तिगत रूप सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
  11. माता-पिता या संरक्षक ढारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों द्वारा प्राचीन शिक्षा प्रदान करना। (8वें संशोधन ढारा)
- मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय पर लागू हैं जो कि विदेशी नागरिकों पर।
- मौलिक कर्तव्यों का नीतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है।
- SFA(R) मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनु० 21(A) के समान है।

2.

Which scientist synthesised an organic compound, urea, from an inorganic compound, ammonium cyanate?

किस वैज्ञानिक ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सायनेट से कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया?

1. Berthelot
2. F Wohler
3. Kolbe
4. Berzelius

1. बर्थेलॉट
2. एफ वोहलर
3. कोल्बे
4. बर्जीलियस


**PARMAR**  
**SSC**

यूरिया =  $\text{NH}_2\text{CONH}_2$

मैथेन - मार्फा गैस

↪  
वर्गीकृत  
( $\text{CH}_4$ )

### दाइड्रोकार्बन



→ कीवी- दाइड्रोकार्बन का संश्लेषण

→ वर्जिलियस - रासायनिक प्रतीक

सबसे पहले उपयोग

↓  
भॉन डाल्टन  
(परमाणु सिहान्त)

Which is the oldest and most widespread industry in India?

3.

भारत का सबसे पुराना और सबसे व्यापक उद्योग कौन सा है?

1. Food processing
2. Fertiliser
3. Mining
4. Textile

1. खाद्य प्रसंस्करण
2. उर्वरक
3. खनन
4. कपड़ा

कृषि मील - 1<sup>st</sup> - 1818, फौर्ट रजिस्टर (कलकत्ता)

2<sup>nd</sup> - 1854, वॉर्मी स्पिनिंग एंड टीविंग कंपनी

मिट्टी - काली, 210 पाला मुक्त दिन

झूट मील - 1855, Acland Mill → कलकत्ता (रिश्वारा, WB)

सीमीट - 1904, चैन्नई


{ नम बच्चा - लाल मृदा  
 { आदिक बच्चा - लैटेराइट मृदा (निषाबन की  
 ↓  
 काढ़ू की खेती  
 Brick soil. कॉफी, चाय

4.

Which of the following options are homogeneous mixtures?

1. Solution, colloid, milk, toothpaste, salt water, brass
2. Colloid, suspension, milk, toothpaste
3. Solution, colloid, suspension, milk, toothpaste, salt water, brass
4. Solution, salt water, brass

1. घोल, कोलाइड, दूध, टूथपेस्ट, खारा पानी, पीतल
2. कोलाइड, सस्पेंशन, दूध, टूथपेस्ट
3. घोल, कोलाइड, सस्पेंशन, दूध, टूथपेस्ट, खारा पानी, पीतल
4. घोल, खारा पानी, पीतल



→ टिण्डल प्रभाव- एक माध्यम द्वारा सूक्ष्मा की किरण का विखराव जिसमें दौड़े निलंबित कर दीते हैं, जैसे- कमरे में धुआँ या धूल, जो रिकड़ी से सूक्ष्मा करने वाली सूक्ष्मा किरण की दृश्यमान बनाते हैं।

→ कीलोव्हड - आकारः किलो - लोहल  
टिक्कल प्रभाव ✓ (विजातीय)

→ मिश्रध्यातु = सजातीय मिश्रण  
 ↴ पारा = अमलगम

→ सीसा (Pb)  $\xrightarrow{\text{खुले में}}$  PbS  $\xrightarrow{\text{लैडसल्फाइट}}$  काली परत

5.

**Rickets is caused by deficiency of:**

रिकेट्स किसकी कमी से होता है:

1. vitamin C
  2. vitamin B
  3. vitamin D
  4. vitamin A

1. विटामिन सी
  2. विटामिन बी
  3. विटामिन डी
  4. विटामिन ए

1912 : कासिमिर फंक - विटामिन

४८

जलमें वसा में

5

## वसा में

$B \rightarrow B$  complex  
 $(B_1 - B_{12})$

रेटिनोल

→ एतोंधी / जीरफ्येल्मया

**C** स्फुरकीरणिक अमल

→ सुकर्वा, मसड़े फूलगा, रवृन आना

D → रपट्टफेल, आवला  
 कैलिसफेरील  
 → सरपिकाणा / मुद्दली का तेल

→ रिकेट्स (सूरवारीग), ऑस्ट्रियोपेर्सिस

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ | ੧੩

→ ਕਾਂਝਪਨ

**π** फाइलोविट्वीन → ↓  
Rougeulation (रक्त का धक्का बम्बना)

1

खाना पकाने में विटामिन C गायब ही जाता।

6.

Which schedule of the Constitution of India contains provisions for disqualification of legislator on the ground of defection?



भारत के संविधान की किस अनुसूची में दलबदल के आधार पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है?

- 1. Schedule-X
- 2. Schedule-XI
- 3. Schedule-VIII
- 4. Schedule-IX

- 1. अनुसूची-X
- 2. अनुसूची-XI
- 3. अनुसूची-आठवीं
- 4. अनुसूची-IX

④ 8<sup>th</sup> अनुसूची: भाषाएँ

मूलसंविधान - 14

दर्तमान - 22

15/102

21 वां संविधान संशोधन 1967 → सिंधी भाषा

71 वां „ „ 1992 → नेपाली, मणिपुरी, काकणी

92 वां „ „ 2003 → मैथिली, संचाली, ब्रिडो, डीगरी

96 वां „ „ → उडिया

वास्त्रीय भाषाएँ →	तू → तमिल
	शुरु → संस्कृत
	ती → तेलगु
	कर → कन्नड
	मे → मलयालम
आरिया →	ओडिया

④ 9<sup>th</sup> अनुसूची: 'भूमि सुधार से संबंधित'

पट्टला संविधान संशोधन 1951 के तहत जीडी गई।  
( PM - नेहरू जी )

① 10<sup>th</sup> अनुसूची:

दल-बदल कानून निषेध किया गया

52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जीडी गई।

② 11<sup>th</sup> अनुसूची:

ठाम पंचायत के 29 विषयों का उल्लेख।

73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जीडी गई  
(PM- पीरी नरसिंहा राव)

③ 12<sup>th</sup> अनुसूची:

नगर पंचायत के 10 विषयों का उल्लेख।

74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत।

→ कोई सी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है - अंग्रेजी

→ भारत के संविधान के अनुसार, 'पशुधन और पशुपालन' का विषय शामिल है। राज्य सूचा

9<sup>th</sup> अनुसूची - मार्झआर कीटों कीस, भौमिकारी कानून समाप्त

10वीं अनुसूची - 75(1)(B) - 91वां संविधान संशोधन  
(A) - मंत्रियों की अधिकतम संख्या = लोकसभा का 15%.

दबवदल: (a) पार्टी बदलना

(b) जामित सदस्य → 6 महिने की बाद किसी भी पार्टी की वाइन करना।

(c) स्वतंत्र सदस्य → किसी पार्टी की सदस्यता लेना।

7.

Which metallic element is called 'ferromagnetic' because of its strong attraction?

किस धात्विक तत्व को उसके प्रबल आकर्षण के कारण 'लौहचुम्बकीय' कहा जाता है?

- |               |                |
|---------------|----------------|
| 1. Gold       | 1. सोना        |
| 2. Molybdenum | 2. मोलिब्डेनम  |
| 3. Aluminium  | 3. एल्युमीनियम |
| 4. Iron       | 4. लोहा        |

लौहचुम्बकीय: वे पदार्थ जो चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में मजबूत चुम्बकीयता विकसित करते हैं।

उदाहरण - लौह, कोबाल्ट, निकल, गिडीलिनियम, दुर्लभ पूर्णता तत्व

↓  
लैंथानाइड्स (Lanthanides) +  
स्कैंडियम (Scandium), यट्रियम

8 पॉलिट्रॉन की रवैज़ किसने की ?  
→ कार्ल एंडरसन

भारत में सबसे पहले परमाणु  
की वर्णीया - Vaisheshika

↳ कर्नल द्विनिशास्त्र


इलेक्ट्रॉन - पॉलिट्रॉन

(Goldschmidt) प्रीट्रॉन - एदरफोर्ड →  $\beta$ -कण (1911)  
ज्यूट्रॉन - चैर्चिल → जागिक की रवैज़  
(p+e) ↳ Nucleons

$$\text{आवेश} \left\{ \begin{array}{l} e^- \rightarrow -1.6 \times 10^{-19} C \\ p^+ \rightarrow +1.6 \times 10^{-19} C \end{array} \right.$$

जील्स बीर → परमाणु संरचना & क्वांटम सिहांत की समझने में मूलशूत खीजना  
↓ शोधदान दिया।

(Bohr-Bury) →  $2n^2$



9. Which of the following is NOT one of the Rabi crops?

निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है?

- |             |          |
|-------------|----------|
| 1. Mustard  | 1. सरसों |
| 2. Cucumber | 2. खीरा  |
| 3. Wheat    | 3. गेहं  |
| 4. Barley   | 4. जीं   |

रवी - जर्वंवर - अप्रैल → मटर, चना, सरसों, गेहं

खरीफ - झुलाई - अक्टूबर (मानसूनी फसल) → धान, मक्का, मूँगफली, कुपास

भायद - मई - जून → सब्जियाँ, खीरा, कंकड़ी

एक्षिचनी विक्षीभा - महावर (रवी की फसल के लिये फायदेमंद)

**10.**

The famous musician Vishnu Govind Jog is primarily associated with which of the following musical instruments?

प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हैं?

1. Violin
2. Veena
3. Flute
4. Tabla

1. वायलिन
2. वीणा
3. बांसुरी
4. तबला

**वायलिन -** TN कृष्णा, मुख्लीदारन, अरथर ( श्रीराम)

**बांसुरी -** दृश्यप्रसाद चौरसिया, पन्ना लालपीछ, राजीनामप्रसन्ना, कुलकर्णी

**वीणा -** समुहगुप्त, APJ अब्दुल कलाम, औरंगजेब, S.बालचन्द्र

**11.**

Sriharikota island is located in which of the following states?

1. West Bengal
2. Tamil Nadu
3. Odisha
4. Andhra Pradesh

1. पश्चिम बंगाल
2. तमில்நாடு
3. ओडिशा
4. आंध्र प्रदेश

**श्री द्विकोटा द्वीप -** सतीश दावन अंतरिक्ष केंद्र

युनिवर्सिटीरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन

- भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के मन्त्री - विक्रम अंबालाल साराघार्डि
- भारत की पहली सैटेलाइट - आर्याप्रदृष्ट




12.

Which glands help in digestion in the stomach?

पेट में पाचन में कौन सी ग्रंथियां मदद करती हैं?

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. Pineal           | 1. पीनियल              |
| ✓ 2. Gastric glands | 2. गैस्ट्रिक ग्रंथियां |
| 3. Thyroid          | 3. थायरोइड             |
| 4. Pituitary        | 4. पिट्यूट्री          |

- पीनियल - मटर के आकार की छत्तें ही
- थायरोइड - सबसे बड़ी अंतःस्नावित छत्ति → शायरोविसन दार्मिन का स्नावण
- पीट्यूट्री - आयीडीन की कमी से



जार छत्ति : लार (Saliva) → जटिल कार्बोहाइड्रेट → सरल कार्बोहाइड्रेट

↓  
स्टार्च

पीढ़ी अपने भीजन का संग्रहण = स्टार्च के रूप में  
मनुष्य " " " " = रबाइजन " "

Stomach / उदर : { HCl का स्नावण → वैकटीरिया को मारना, माद्यम को अम्लीय बनाना  
पीपिसन → प्रीटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ना  
जररस = १.६ (PH)


स्फिंक्टर मांसपेश्वी (Sphincter muscles) : द्वारीर के किसी मार्फ द्वियों की दीर्घी तक  
तथा उसे सिनेंडने द्वारा बंद करने में सक्षम  
कीर्द्ध भी वलयनुमा मांसपेश्वी।

Stomach → द्वारी अंत  
भीजन

**द्वारी अंत :** ७-८ m लम्बी  
पाचन का मुख्य शाखा  
रबाइजन { पित्त रक्षा (यकृत द्वारा स्नावण)

यकृत → सबसे बड़ी  
लाहू छत्ति  
गाढ़ी वाले रंग का  
Kupffer cells - पुरुषिन्द्रम

पित्ताशय - पित्त रस का शोषण



अठन्याशय - मिश्रित घंथी

जाइपैज़ : वसा → वसीय अम्ल

द्रिप्सन : प्लीटीन →  
अमीनी अम्ल



विली (Villi) : उंगली जैसे उभार

ढाँटी आंत के सतह की बढ़ता है / (भीजन ग्रहण के लिए)

बड़ी आंत : 1.5 m , भीजन से पानी का अवशेषण (Colostrum)

आहारनली : मुट्ठा → ग्रासनली → उदर/पेट → ढाँटी आंत → बड़ी आंत → मलाशय → Albus

Appendix : Vestigial organ → Cocky's bone



13.

Match list I to list II. सूची I को सूची II से सुमेलित करें।



## List I

- a) Second Five-year plan
- b) Fifth Five-year plan
- c) Eight Five-year plan

## List II

- i) 1974-1979
- ii) 1956-1961
- iii) 1992-1997

1. a-i, b-iii, c-ii
2. a-iii, b-i, c-ii
3. a-ii, b-i, c-iii
4. a-i, b-ii, c-iii

3<sup>rd</sup> FYP

योजना अवकाश  
(1966-69)

5<sup>th</sup> FYP

(1974-78)  
(शीलिंग प्लान)

7<sup>th</sup> FYP

(1985-90)  
वार्षिक योजना (1991-92)

7<sup>th</sup> FYP : राजीव गांधी की कार्यकाल में  
भ्रीजन, काम, उत्पादन पर वल  
लक्ष्य = 5%, प्राप्ति - 6%.

Which of the following statements are true regarding the Ravana Phadi cave at Aihole.

ऐहोल स्थित रावण फाड़ी गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

1. Nataraja is the important structure at this site.
2. This Nataraja image is surrounded on the right by four large saptamatrikas and on the left by three large ones.
3. The figures have slim, graceful bodies with long oval faces.
4. The temple shows a distinct feature of Pandya architecture of mixing and incorporation of several styles.


1. नटराज इस स्थल पर महत्वपूर्ण संरचना है।
2. नटराज की यह प्रतिमा दाईं ओर चार बड़ी सप्तमातृकाओं और बाईं ओर तीन बड़ी सप्तमातृकाओं से घिरी हुई है।
3. इन आकृतियों में लंबे अंडाकार चेहरे के साथ पतले, सुंदर शरीर हैं।
4. मंदिर में कई शैलियों के मिश्रण और समावेश की पांड्य वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता दिखाई देती है।

1. 1, 3 and 4

2. 1, 2 and 4

3. 1, 2 and 3

4. 2, 3 and 4



**15.**

Which of the following industries was NOT in Schedule A of Industrial Policy 1956?

निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में नहीं था?



1. Mining of salt
2. Iron and steel
3. Air transport
4. Mineral oils

1. नमक का खनन
2. लोहा और इस्पात
3. हवाई परिवहन
4. खनिज तेल

### Classification of Industries as per IPR, 1956

#### Schedule A Industries

(Comprises of Industries exclusively owned by state)

#### Schedule B

(Comprises of 12 Industries which would be progressively state-owned)

#### Schedule C

(Comprises of remaining Industries which were to be in the private sector)

**16.**

What do you call the drugs that bind to the receptor site and inhibits its Natural Function?

आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती हैं और उसके प्राकृतिक कार्य को रोकती हैं?

1. Agonist
2. Antagonist
3. Depressant
4. Anti Depressant


एगोनिस्ट : ऐसा पदार्थ जो मस्तिष्क में एक विशिष्ट रिसेप्टर से लंबा जोनेपर प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए ब्यूरोदांसमीटर या ट्रामीन जैसी क्रियाओं की नकल करता है।

**17.**

केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है?

The appointment of the Governor by the Center is related to which feature of the Constitution of India?

1. एकात्मक प्रणाली (Unitary system)
2. संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)
3. निदेशक सिद्धांत (Directive Principles)
4. संघीय विशेषता (Federal feature )



**18.**

\_\_\_\_\_ is a state of deprivation that reflects the inability of an individual to satisfy basic needs for a sustained, healthy and reasonably productive living.

\_\_\_\_\_ अभाव की एक स्थिति है जो किसी व्यक्ति की निरंतर, स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता को दर्शाती है।

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poverty</li> <li>2. Illiteracy</li> <li>3. Ignorance</li> <li>4. Bondage</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. गरीबी</b></li> <li>2. अशिक्षा</li> <li>3. अज्ञानता</li> <li>4. बंधन</li> </ol> |
|---|---|

### गरीबी से संबंधित समिति:

दाठेकर & एच समिति (1971)

अल्प समिति

लकड़वाला समिति

तेंदुलकर समिति (2009)

- ↳ मिश्नित संदर्भ अवधि के स्थान पर एकसमान संदर्भ अवधि का सुझाव
- रेगराजन समिति
- ↳ संशोधित मिश्नित संदर्भ अवधि का सुझाव

गरीबी = 21.9% (2011)

R ↑ U  
25.7% 13.7%

**19.**

Which Indian award was established in the year 1982, to promote and encourage scientific efforts in the field of environment and ecology?

पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1982 में कौन सा भारतीय पुरस्कार स्थापित किया गया था?

1. B P Pal National Environment Fellowship Award for Biodiversity
2. Sanjay Gandhi Award for Environment and Ecology
3. Pitambar Pant National Environment Fellowship Award
4. Indira Gandhi Paryavaran Puraskar

1. जैव विविधता के लिए बी पी पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार
2. पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए संजय गांधी पुरस्कार
3. पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार
4. इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार

पारिस्थितिकी: नाम दिया - सर्जेस्ट हैकल (1866)

- भारतीय पारिस्थितिकी के जनक - रामदेव मिश्रा
- Pyramid of Number - पालस लॉटन

20.

Which of the following is a poor conductor of electricity?

निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है?

1. Tap water
2. Distilled water
3. Water from pond
4. Water from hand pump

1. नल का पानी
2. आसुत जल
3. तालाब का पानी
4. हैंडपंप का पानी


आसुत जल = कीर्द्ध आयन नहीं

कठीर जल → उच्च रवनिज सामग्री वाला पानी → कैलिश्यम, मैरनी शियम आदि

D<sub>2</sub>O: भारी जल

D - Deuterium

↳ 3 समस्थानिक



A - परमाणु भार

Z - परमाणु क्रमांक

{ समस्थानिक - परमाणु क्रमांक समान

परमाणु भार मिन्ने

कॉर्वल्ट 60 - केसर

आयोडीन 131 - घोंदा

${}_{37}^{137}Cl$  (क्लोरीन)

3:1

CS.

Q. Who recently received the Lokmanya Tilak Award

- a) Droupadi Murmu
- b) Narendra Modi
- c) S. Jaishankar
- d) Amit Shah

CS.

Q. Who won the Men's Singles title at the Canada Grand Prix 2023 ?

- a) S. Praneeth
- b) Lakshya Sen
- c) Satwik Sairaj
- d) Chirag Shetty